



TEST REQUISITION FORM

Patient Details

First Name: MR Dinesh Last Name: _____

Age: 52 Gender: Male Female

Address: _____

Contact No.: _____

E-mail ID: _____

Referred by: _____ Contact No.: _____

For Maternal Screening - Date of Birth: DD MM YYYY

Weight: _____ kg. Height: _____ ft _____ inches, LMP _____ Last Ultrasound Report

Billing Information

Client Name: _____

Client ID: _____

Total Amount: _____

Amount Received: _____ Receipt No.: _____

Amount Balance / Due: _____

Payment via: CASH CHEQUE CREDIT

Specimen Type Received (For MolQ use only)

- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serum | <input type="checkbox"/> Bone Marrow | <input type="checkbox"/> CSF |
| <input type="checkbox"/> Plasma: EDTA/FL/CIT | <input type="checkbox"/> FN Aspirate | <input type="checkbox"/> Fluid |
| <input type="checkbox"/> SST | <input type="checkbox"/> Tissue Formalin | <input type="checkbox"/> BAL |
| <input type="checkbox"/> W. Blood EDTA | <input type="checkbox"/> Paraffin Block | <input type="checkbox"/> Sputum |
| <input type="checkbox"/> W. Blood Fluoride | <input type="checkbox"/> Smear | <input type="checkbox"/> Urine |
| <input type="checkbox"/> W. Blood Heparin | <input type="checkbox"/> Slide (H&E) | <input type="checkbox"/> Stool |
| <input type="checkbox"/> W. Blood Sodium Citrate | <input checked="" type="checkbox"/> Pus | <input type="checkbox"/> Swab |
| | <input type="checkbox"/> Blood Culture Bottle | <input type="checkbox"/> Others |

Other Sample Type / Source: _____

Received Specimen Information (For MolQ use only)

Temperature: _____ Date: _____ Time: _____

- Ambient
 Refrigerated
 Frozen

Patient ID: _____ No. of vials/container: _____

1	2
---	---

Signature of Accessioning Officer(s)

Patient Consent : I hereby authorize MolQ Laboratory to use and share with affiliates my personal information including but not limited to any condition / disease information etc. as may be necessary to perform the test or services etc. Medical records/information, to the extent of the applicable by laws and regulations, will be kept confidential and will not be made publicly available. Further, I authorize the use of the leftover specimens for immediate research and in future research of any kind and at any time in the future. The samples will be coded to maintain confidentiality and will be discarded as per the rules and regulations specified as applicable by law. In the event of any publication by MolQ Laboratory, patient's identity will remain confidential. I agree to the access of my medical records and specimen for diagnostic and research purpose.

Disclaimer : For any test/service related complain/query please contact MolQ Laboratory for resolution. In case of any dispute the jurisdiction will be Head Office, Dehradun, Uttarakhand. The financial liability or compensation of any sort is not more than MRP of the Test requested

रोगी सहमति : मैं मोल्क्यु प्रयोगशाला को अधिकृत करता हूँ कि मेरी पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी अपनी किसी भी शाखा के साथ साझा कर सकती है। मेरी बीमारी की हालत या सूचना का खुलासा अगर परीक्षण के संचालन के लिए आवश्यक है, तो मैं इसकी अनुमति देता हूँ यद्यपि यह जानकारी उस सीमा तक साझा की जाए जो कि कानूनी सीमा के अंतर्गत हो। मेरी इस प्रकार की जानकारी को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाए और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ना कराई जाए। इसके पश्चात मैं प्रयोगशाला को देबारा अधिकृत करता हूँ कि जो नमूना जॉंच के लिए उपलब्ध कराया था, उससे से बचे हुए नमूने को प्रयोगशाला कर्मों भी और किसी भी समय किसी भी प्रकार के प्रयोग के लिए उपयोग में ला सकती है। शेष नमूने को पूर्ण रूप से अंकित किया जाए और गुप्त रूप से रखा जाए और जब इसको नष्ट किया जाए तो पूर्ण रूप से नियम और विनियमता का उपयोग किया जाए। किसी भी प्रकार के मोल्क्यु प्रयोगशाला के प्रकाशन में रोगी की निजी जानकारियों को पूर्ण रूप में गुप्त रखा जाएगा। मैं सहमत हूँ कि मेरी मेडिकल रिकॉर्ड और मेरे बचे हुए नमूने को नैदानिक प्रयोग और किसी भी प्रकार के अनुसंधान के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।

अस्वीकृति : किसी भी जॉंच सम्बन्ध शिकायत या जानकारी हेतु आप मोल्क्यु प्रयोगशाला को सम्पर्क कर सकते है. किसी भी प्रकार की कानूनी झगड़े हेतु हमारा मुख्यालय देहरादून, उत्तराखण्ड है, किसी भी जॉंच का मूल्य उसके दिए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं होगा।

Test Name/Test Code

(Please refer to the Directory of Services for correct name and specimen type)

Pus CS

Instructions to Laboratory/Clinical Information

Sent Specimen Information

Temperature: Ambient Refrigerated Frozen

Sample / Vial Type

Vial ID Barcode



Total No. of Vials/Container: _____

Specimen Collection Information

Date: _____ Time: _____

Fasting: Yes No Fasting Period: _____ Hrs.

Collection by: _____

Urine Volume: _____ ml Hrs. _____

Patient/Client /Doctor's Signature

Date: _____

1

1000



CHIRAG HOSPITAL

CH/IPD/ER/21/18/00

3236/31, Vishnu Garden, Rajendra Park, Sector-105, Gurugram (Gurgaon) 122006
Tel: 0124-2468848, 0124-2469130

OPERATION NOTES:

DATE: 12/2/18

START TIME: 9:40 am

END TIME: 10:20 am

Diagnosis: Abscess (L) Lt toe & uncontrolled pain

Diagnosis:

Procedure: Type of Anesthesia LA

Dr. Anil

Dr. Sonu

+ de-roofing done & debridement

VITALS: Stable

Wound 4x5

POST-OP:

Condition at end of Surgery: STABLE FAIR CRITICAL

Drugs: (1) NPO (2) 3mg (3) PC/Urily 10 (4) Augmentin

(5) Pain relief (6) 100mg Amoxicillin 500mg IV 12hr

(7) 100mg TPR cleaning (8) Informal

(9) lower limb

Dr. Anil
Name & Signature of Surgeon



10



CHIRAG HOSPITAL

CH/IPD/ER/5/18/00

3236/31, Vishnu Garden, Rajendra Park, Sector-105, Gurugram, (Gurgaon) 122006
Tel: 0124-2468848; 0124-2469130

UHID No. CH/02513 PROGRESS SHEET (To be filled by Doctor)

IP No. 02430

Date	Time	CLINICAL FINDINGS	INVESTIGATION & TREATMENT	NAME & SIGN.
		12/11/18 (L) Diabetic foot - Uncontrolled DM		
		Plan - Sx		
			Adv	
		X-Ray (L) Foot - NO	NO	
		Color Doppler	consent	
		Cult (L) lower	at rest - all	
		limb	Start foot on w/c	
		Details of disease, treatment plan, prognosis, risks, possible complications, w/c - advised for amputation explained in detail to patient & his wife		Dr. <u>[Signature]</u>

